



January 25, 2026

Manager - Listing Compliance
BSE Limited
Floor 25, P J Towers, Dalal Street
Mumbai -400 001

Manager - Listing Compliance
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai-400051

Scrip code: 532640

Symbol: CYBERMEDIA

Sub.: Newspaper Advertisement- Approval of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025

Dear Sir/Madam,


Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of advertisement published in the newspapers, 'Financial Express'-English Edition and 'Jansatta'-Hindi Edition, both dated January 25, 2026, with respect to approval of unaudited financial results, standalone and consolidated, of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025.

The advertisement copies are also available on the Company's website at www.cybermedia.co.in.

This is for your information and record.

Yours truly,
For Cyber Media (India) Limited

Anoop Singh
Company Secretary
M. No. F8264

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

Registered & Corporate Office: 502, Tower-A, Peninsula Business Park, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013 , Circle Office :- 9B, 2nd Floor, Pusa Road, New Delhi-110060

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Capri Global Housing Finance Limited (CGHFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s) / Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower (s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub –section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of CGHFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

S. N. / Guarantor(s)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1. (Loan Account No. LNHEAY1000124184(Old) 5310000050933(New) of our Ayodhya Branch) Kanhaiya Vishwkarma M/S Kanhaiya Fabrication And Hardwar (Borrower) Mr. Ram Dayal, Mrs. Sundarpati W/o Sh. Ram Dayal, Mr. Kishan Vishwkarma S/o Sh. Ram Dayal, Mr. Raju Vishwkarma S/o Sh. Ram Dayal (Co-Borrower)	All that Piece and Parcel of Land and Building, Property bearing Part of Gata No. 53, admeasuring area 330 Sq.Ft., situated at Mauja - Hajari, Pargana - Pasdapur Tehsil - Colonel Nagar, District - Gondia, Uttar Pradesh - 271125, Bounded As:- East: Property of Baldev , West: Property of Raj Kumar Shukla, North: House of Annu Pandey, South: 60 ft. Wide Road	16-10-2025 Rs. 1000234/-	22.01.2026

Place : GONDA

Sd/- (Authorised Officer)

Date : 25-JAN-2026

For Capri Global Housing Finance Limited (CGHFL)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Possession Notice (For Immovable Property) Rule 8-(1)


Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower/Co-Borrowers mentioned herein below to repay the amount notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower dears the dues of the "IIFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s) / Co-Borrower(s)	Description of the Secured Asset (Immovable Property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
Mr. Ved Prakash Shukla Mrs. Mandavi Shukla Prospect No. IL10014166, IL10141308	All that piece and parcel of Private Plot No- 65, Vojana No- 3/1, Area Admeasuring 244 Sq. Ft., Naubasta Kanpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, India, 208021	IL10014166 is Rs.1867210.00/- (Rupees Eighteen Lakh Sixty Seven Thousand Two Hundred and Ten Only) & IL10141308 is Rs.574227.00/- (Rupees Five Lakh Seventy Seven Thousand Four Hundred and Twenty Seven Only)	31/10/2021	19/01/2026

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: 1017, Tenth Floor, Cyber Heights, TC-2/2 and TC-5/5, Vibhuti Khand, Gombi Nagar, Lucknow - 226010 or Corporate Office : IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Place : Kanpur Nagar ; Date : 25.01.2026

Sd/-, Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

HDFC BANK

Head Office : HDFC Bank Ltd. HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400 013 HDFC Bank Ltd. Department for Special Ops Darbari Lal Sharma Marg Branch, Pranay Towers, 38 Darbari Lal Sharma Marg, Lucknow 226001

DEMAND NOTICE

Notice U/s 13(2) Of Securitisation & Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act 2002

The following Borrowers/Guarantor/Mortgagor availed the below mentioned secured loans from HDFC Bank Ltd. the loans of below mentioned Borrowers/Guarantor/Mortgagor have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms & conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loans were classified as NPA's as per the RBI guidelines. Amount due by them to HDFC Bank Ltd. are mentioned in the following table and further interest on the said amounts shall also be payable as applicable and the same will be charged with effect from their respective dates.

Name of Borrowers & Co-borrowers/ Mortgagor	Description of Immovable Property	Loan A/c No. / Loan availed Product
1) M/s Shree Anand Rice Industries Through its Partner C/o Punjabi Colony, Gola, Lakhimpur-Kheri, Uttar Pradesh- 262802 2) Bhooopesh Kumar Sahni S/o Mr. Gulshan Sahni R/o Mohalla- Punjabi Colony, Gola, Gokran Nath, Lakhimpur-Kheri, Uttar Pradesh-262802 3) Smt. Sheela Sahni W/o Mr. Gulshan Sahni R/o Mohalla- Punjabi Colony, Gola, Gokran Nath, Lakhimpur-Kheri, Uttar Pradesh-262802 4) Smt. Deepa Sahni W/o Mr. Bhooopesh Kumar Sahni R/o Mohalla - Punjabi Colony, Gola, Gokran Nath, Lakhimpur-Kheri, Uttar Pradesh- 262802	Property No.1 Residential property at Punjabi Colony, Gola Gokran Nath, Lakhimpur Kheri- 262802 Bounded as per Below: East- Road thereafter H/o Shri Janki Nath Shahni West- H/o Shri Shubhash Anand North- Kasturba Gandhi Vidyalaya/Road South- House of Shri Ram Dularey Shanti Owned By: Bhooopesh Kumar Sahni & Smt. Sheela Sahni Property No. 2 Commercial Property at Village-Jamalpur, Aliganj Road, Plot No. 234-235, Gola Gokran Nath, Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh-262802 Bounded as per Below: East- Gola Gokran Nath Aliganj Road West- Plot of Shri Shobran North- Plot of Ratan Lal Agarwal South- Plot of Shri Radhey Shyam Agarwal Owned By: Bhooopesh Kumar Sahni & Smt. Sheela Sahni Property No. 3 Residential Cum Commercial, Quasba-Gola Pargana- Hyderabad, Mohalla-Punjabi Colony, Gola Gokran Nath, Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh- 262802 (Admeasuring Area-130.86 Sq.Mt.) Bounded as per Below: East- H/o Prahalad Sahni West- Lakhimpur Road to Bhusauria Road North- H/o Harish Sharma South- H/o Jagdish Sodhi Owned By: Smt. Deepa Sahni	50200008811422 Cash Credit 458279287/ 85341318 9951385/ BBG- WC.TL Date of NPA 31-July 2025 Outstanding as per 13(2) / Notice Date Rs. 54,66,164/- (Rupees Five Crore Forty-Six Lakh Sixteen Thousands Six Hundred Forty-Four Only) as on dated 13/01/2026 Notice Date: 13/01/2026


Since the notices sent to you on the addresses on which you originally reside / carry on business / personally works for gain has returned to us we are constrained to cause this notice published, you are hereby called upon u/s 13(2) of the above Act to discharge the above mentioned liability with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days of this notice failing which the Bank will be exercising all or any of the rights u/ Sec 13(4) of the above Act. You are also put to notice that as per terms of Sec 13(13) of the above Act, you shall not transfer by sale, lease or otherwise the aforesaid secured assets.

Date: 25.01.2026

Place: Uttar Pradesh

For HDFC Bank Ltd., Authorised Officer

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS

PNB Housing Finance Limited

Road, Off:- 9th Floor, Anirbhay Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001, Ph: 011-23357171, 23357172, 23705414, Web:- www.pnbhousing.com

BRANCH OFF:- 5TH FLOOR, Flat No. 508-509 PERSIPOLIS BUILDING, SECTOR-17 VASHI, NAVI MUMBAI, MAHARASHTRA - 400703


NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF CHAPTER III OF SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002, READ WITH RULE 8(1) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 ANNOUNCED AS ON DATE

We, the PNB Housing Finance Ltd. (hereinafter referred to as "PNBHFL") had issued Demand notice U/s 13(2) of Chapter III of the Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as the "Act") by our NAVI MUMBAI Office Situated at 5th Floor, Flat No. 508-509, Persipolis Building, Sector -17 Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra - 400703. The said Demand Notice was issued through our Authorized Officer, to you all below mentioned Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors since your account has been classified as Non-Performing Assets as per the Reserve Bank of India/National Housing Bank guidelines due to nonpayment of installments/interest. The contents of the same are the defaults committed by you in the payment of installments of principal, interest, etc. The outstanding amount is mentioned below. Further, with reasons, we believe that you are evading the service of Demand Notice and hence this Publication of Demand Notice which is also required U/s 13(2) of the said Act. You are hereby called upon to pay PNBHFL within a period of 60 Days of the date of publication of this demand notice the aforesaid amount along with up-to-date interest and charges, failing which PNBHFL will take necessary action under all or any of the provisions of Section 13(4) of the said Act, against all or any one or more of the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and guarantors. Your kind attention is invited to provisions of sub-Section (6) of Section 13 of the of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 where under you can tenderpay the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the PNB HFL only till the date of publication of the notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Please also note that if the entire amount of outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the PNB HFL is not tendered before publication of notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty, you may not be entitled to redeem the secured assets thereafter. FURTHER you are prohibited U/s 13(13) of the said Act from transferring either by way of sale, lease or in any other way the aforesaid secured assets.

Loan Account Number	Name & Address of Borrower & Co-borrower	Name & Add. of Guarantor	Property(ies) Mortgaged	Date of Demand Notice	Amount U/s as on date Demand Notice
NHL/NAV/0719/724848	Borrower-Mr. Hsraj Shreeam Patel- Add- B-302, 3rd Floor, Sec 3, Plot No 47, Amrut View Building, Karanjade, Raigad, Maharashtra, 410206/Shop No 05, Plot No 19, Sec 4, Tanisha Society, Karanjade, Raigad, Maharashtra, 410206/Plot No 14, Atharva Residency, Sector 1, Panvel, Maharashtra, 410206/Room No 602, Yashodev Karja, Near Sheshing Phata, Ajunt, Maharashtra, 410201, Co-Borrower-Mr/Ms. Mani Devi - Add- B-302, 3rd Floor, Sec 3, Plot No 47, Amrut View Building, Karanjade, Raigad, Maharashtra, 410206.	NA	1) Shop No 5, Plot No 19 Ground Floor, Sector 04, Tanisha, Karanjade, Panvel, Raigad(Mh), Maharashtra, 402301, 2) Flat No B-302, 3rd Floor, Amrut View, Near Om Namah Shivay Chs, Jnpt Road Plot No. 47 And 48, Sector No 03, Karanjade, Panvel, Maharashtra, 410206	13-Jan-2026	Rs. 41,22,028.52 (Rupees Forty One Lakhs Twenty Two Thousand Eight Hundred And Fifty Two Paisa Only) as on 13-01-2026

PLACE:-NAVI MUMBAI,DATE:- 24.01.2026

Sd/- AUTHORIZED OFFICER, PNB HOUSING FINANCE LIMITED

CyberMedia

CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED

CIN : L92114DL1982PLC014334

Registered Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi - 110 017, Tel. 011-26491320

Corporate Office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram - 122 003, Haryana. Tel. 0124-4237517

Website: www.cybermedia.co.in; Email: investorcare@cybermedia.co.in

Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and 9 month period ended December 31, 2025

(Rupees in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	31/12/2025 (Unaudited)	30/09/2025 (Unaudited)	31/12/2024 (Unaudited)	31/12/2025 (Unaudited)	31/12/2024 (Unaudited)	Year Ended 31/03/2025 (Audited)
1	Total income from operations	2,549.93	2,453.22	2,378.05	7,610.70	6,556.53	8,765.06
2	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	137.29	118.46	(6.90)	385.92	5.86	(20.44)
3	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	34.48	118.46	(885.90)	283.11	(880.02)	(911.28)
4	Net profit / (loss) for the period after tax	20.11	93.09	(911.60)	224.55	(921.60)	(972.84)
5	Total comprehensive income for the period	20.11	93.09	(911.60)	224.55	(921.60)	(982.79)
6	Paid-up equity share capital	1,824.85	1,824.85	1,566.72	1,824.85	1,566.72	1,566.72
7	Other Equity	-	-	-	-	-	(3,203.16)
8	Earnings per share (Face value per share Rs.10/-each)						
a)	Basic (Rs. per share)	0.12	0.54	(5.82)	1.31	(5.88)	(6.21)
b)	Diluted (Rs. per share)	0.12	0.54	(5.82)	1.31	(5.88)	(6.21)

Notes:

1 The above consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 24/01/2026 and approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 24/01/2026.

2 Standalone Information:

Particulars	31/12/2025 (Unaudited)	30/09/2025 (Unaudited)	31/12/2024 (Unaudited)	31/12/2025 (Unaudited)	31/12/2024 (Unaudited)	31/03/2025 (Audited)
Total Revenue	344.08	427.89	290.48	1,167.29	877.42	1,238.82
Profit before tax	(37.96)	31.22	(976.67)	(3.76)	(1,118.15)	(1,191.58)
Profit after tax	(37.96)	31.22	(976.67)	(3.76)	(1,118.12)	(1,191.56)
Other comprehensive income (OCI)	-	-	-	-	-	(2.10)
Total comprehensive income (Net of tax)	(37.96)	31.22	(976.67)	(3.76)	(1,118.12)	(1,193.66)

3 The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated financial results are available on stock exchanges' website BSE (www.bseindia.com) & NSE (www.nseindia.com) and on Company's website (www.cybermedia.co.in).

4 Figures for the previous corresponding period have been regrouped, wherever considered necessary.

By Order of the Board

Sd/-


Pradeep Gupta


Chairman & Managing Director


DIN 00007520


Place: New Delhi


Dated: 24/01/2026


DATAQUEST


PQUEST


CMR


CICOL


VOICES & DATA


living digital

THE DQ WEEK

DQ Channels

Connect

DARE

Mahindra Rural Housing Finance Limited

Corporate Office:- Mahindra Rural Housing Finance Ltd. Unit No.203, Amit Building, Piramal Agastya Corporate Park, Opposite Fire Brigade Station, Kamani Junction, L.B.S. Main Road, Kurla (West), Mumbai- 400 070. Tel: +91 22 62929800

Regional Office: 2nd Floor , Ashoka Raj Tower Unit No. CP-162, Sector-D LDA Colony, Kanpur Road Lucknow, Uttar Pradesh-226012

(For Immovable Property) (Under Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of M/s Mahindra Rural Housing Finance Ltd. (hereinafter referred to as "MRHFL"), Having its registered office at LUCKNOW under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names and addresses mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice being within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower mentioned herein above having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein above and to the public in general that undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub section (4) of section 13 of the Act read with the Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the **22-01-2026, 23.01.2026 & 24.01.2026**

The borrowers mentioned herein above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the property will be subject to the Charge of M/S Mahindra Rural Housing Finance Ltd. for an amount and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

S.N.	Name of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Description of Secured Asset (Immovable Property)	Demand Notice Date & Amount	Date of Possession
1.	BAHRAICH (Branch) 1581950 /XRESBAH01176904 RAM GOPAL, (Borrower), ANEETA TIWARI, (Co-Borrower), NIRANJAN (Guarantor)	GATA NO.1221 MIN VILL-CHULAMBHA POST-BADRAULI,KAISERGANJ,BAHRAICH,UP-271903, East:RAASTA, West:AGRI LAND OF GIRDHARI LAL, North :H/O TILAK RAM, South:HOUSE OF GIRDHARI LAL	27-09-2024 Rs. 131400/-	23.01.2026 Symbolic Possession
2.	BAHRAICH, (Branch) 1549365 /XRESBAH01154749 PRAMOD KUMAR, (Borrower), Vishram, Anjani Devi (Co-Borrower), Ramesh Ufr Munau (Guarantor)	GATA NO-218 H.NO-45, PO LAKHA BAUNDI,LAKHA BAUNDI,MAHASI,BAHRAICH, UTTAR PRADESH -271825, East:RAASTA, West:H/O TEERATH RAM, North :H/O RAJARAM, South:GALI AND PLOT OF TEERATH	13-07-2024 Rs. 131078/-	24.01.2026 Symbolic Possession
3.	RAEBARELI, (Branch) 1433355 /XRESBAR01089254 DHARMASEN, (Borrower), BINU, (Co-Borrower), Ganga Prasad (Guarantor)	GATA NO-222 GRAM-JOTTIYAMAU,POST-BHEEMGANJ, TEHSIL-DALMAU, DIST-RAEBARELI, JOTTIYAMAU, DALMAU, RAEBARELI ,UTTAR PRADESH -229207, East :TALAB, West:HOUSE AND SEHEN OF SHIVDEVI, North :AGRILAND OF SAMSHER, South:SELF SEHEN+ROAD	06-01-2025 Rs. 105067/-	24.01.2026 Symbolic Possession
4.	RAEBARELI, (Branch) 1470268 /XRESBAR01107364 KABEER DAS, (Borrower), DHARMI, (Co-Borrower), PRAMESH KUMAR (Guarantor)	GATA NO-187,GRAM-BHUJAVAN KHERA SARAI UMAR,POST-DIGHAURA, TEHSDIS- RAEBARELI,SARAI UMAR,RAE BARELI,RAEBARELI ,UTTAR PRADESH -229303, East:SELF LAND, West:SELF LAND, North :RASTA+H/O SANTOSH, South:L/O TULSI	27-09-2024 Rs. 126401/-	24.01.2026 Symbolic Possession
5.	Sitapur, (Branch) 1258107 /XRESSIT00991481 Deepu Awasthi, (Borrower), Rajni Awasthi, (Co-Borrower), SANDEEP KUMAR (Guarantor)	H.NO. 6 GA, WARD NO. 14 MOHALLA- JOSHI TOLA, HARGAON, HARGAON, SITAPUR, SITAPUR , UTTAR PRADESH -261121, East:H/O SHRIKANT, West:TILE ROAD, North :H/O SHIVSAGAR LAL, South:H/O KANHAIYA LAL	26-08-2021 Rs. 187851/-	24.01.2026 Symbolic Possession
6.	Sitapur, (Branch) 1365086 /XRESSIT01053869 Lalit Kumar Singh, (Borrower), Hribakh Singh, (Co-Borrower), Shila Singh (Co-Borrower), PRABHAKAR SINGH (Guarantor)	GATA NO. 89 VILL- PAUDAVAR, POST- PARSADA, TEHSIL-MISHRIKH, DIST- SITAPUR,PARSADA, MISRIKH, SITAPUR , UTTAR PRADESH -261404, East:SELF SAHAN + H/O RAM SWAROOP, West: WELL + RCC ROAD + H/O GANGARAM, North :RCC ROAD + H/O GOVIND GIRDHAR, South:LAND OF KAMLESH SHRIVASTAVA	16-08-2023 Rs. 144747/-	23.01.2026 Symbolic Possession
7.	Sitapur, (Branch) 1336390 /XRESSIT01033320 Naveen, (Borrower), Ram Pati, (Co-Borrower), Mordhraj (Co-Borrower), VIJAY SHANKAR (Guarantor)	GATA NO 79 , VILL-PAKARIYA , POST-JAHASAPUR,PAKARIYA,MISRIKH, SITAPUR , UTTAR PRADESH -261141, East: H/O VIDYANAND, West: H/O KHUSHI RAM, North : KHADANJA ROAD, South:KALI MATA MANDIR	16-08-2023 Rs. 185501/-	23.01.2026 Symbolic Possession
8.	Sitapur, (Branch) 1233482 /XRESSIT00965781 ANKUSH BHARATI, (Borrower), Radha Rani, (Co-Borrower), Murlidhar (Co-Borrower), RAMPAL (Guarantor)	GATA NO-888 VILL HINDWAL GRANT RAMPUR, POST AKBARPUR,RAMPUR,MISRIKH, SITAPUR , UTTAR PRADESH -261401, East: H/O SARVAN, West:KATCHA RASTA, North :CC ROAD, South: AABADI LAND OF SITARAM	31-05-2024 Rs. 113828/-	24.01.2026 Symbolic Possession
9.	Sitapur, (Branch) 1480244 /XRESSIT01118532 VINAY KUMAR, (Borrower), Saroj, (Co-Borrower), VINOD KUMAR SHUKLA (Guarantor)	Gata No. 232 Ho.no.170.vill-lalpur,post-panditpurwa, Pargana-biswan,tehsil-biswan,sitapur , Sitapur,sitapur ,uttar Pradesh -261201, East:h/o Rajesh-Hand Of Rajesh, West:h/o Vijay, North :h/o Pinku, South:shaan Of Vijay + Kaccha Rast	21-06-2024 Rs. 127382/-	22.01.2026 Symbolic Possession
10.	Sitapur, (Branch) 1577414 /XRESSIT01172550 DINESH KUMAR SHARMA, (Borrower), Puspia Devi, (Co-Borrower), Laljwati (Co-Borrower), ASHOK KUMAR (Guarantor)	AABADI GATA NO. 568,VILL-DASELIYA POST-RAKHAUNA,PARGANA-KHARABAD, TEHSIL-SITAPUR,DISTT-SITAPUR,MISRIKH, SITAPUR ,UTTAR PRADESH -261121, East:HOUSE OF VISHWNATH, West:KHADANJA, North :SAHAN OF DINESH ^KHADANJA, South:HOUSE OF SHIVAM	04-07-2024 Rs. 101153/-	23.01.2026 Symbolic Possession
11.	Sitapur, (Branch) 1544892 /XRESSIT01147137 DOS MOHAMAD, (Borrower), Fool Jahan, (Co-Borrower), HASIM (Guarantor)	GATA NO.251,VILL-GADDIPUR MAJRA-GODWA SHAHBGANJ , POST-BAMBHAURA , PARGANA-SITAPUR,T EHSIL - MAHOLI , SITAPUR,SITAPUR,UTTAR PRADESH -261141, East:H/O MOHAMMAD, West: LAND OF NABI AHMAD, North :DAMAR ROAD, South:H/O AZAD	04-07-2024 Rs. 114585/-	24.01.2026 Symbolic Possession
12.	Sitapur, (Branch) 1564156 /XRESSIT01167438 RAJENDRA KUMAR, (Borrower), Dhani Ram, (Co-Borrower), Manju Devi (Co-Borrower), RAMAKANT (Guarantor)	GATA NO.289,VILL-KESHAVMAU POST-BARTAL,PARGANA-KOROUNA, TEHSIL-MISHRIKH,DISTT-SITAPUR,MISRIKH, SITAPUR ,UTTAR PRADESH -261403, East:RCC ROAD, West:LAND OF PRIMASRY SCHOOL, North :H/O PUTAN, South:H/O PAPPU	13-07-2024 Rs. 143812/-	23.01.2026 Symbolic Possession
13.	Sitapur, (Branch) 1569492 /XRESSIT01165689 MANOJ KUMAR, (Borrower), Shanti Devi, (Co-Borrower), Boota Devi (Co-Borrower), VINOD KUMAR (Guarantor)	ABADI GATA NO.937,VILL-KUSAILA POST-KUSAILA,PARGANA-MAHOLI, TEHSIL-MAHOLI,DISTT-SITAPUR,SITAPUR,SITAPUR,UTTAR PRADESH -261141, East:RCC ROAD, West:LAND OF RAM RATAN, North :AGG LAND OF RAM, South:H/O SHRIDHAR	26-07-2024 Rs. 124905/-	23.01.2026 Symbolic Possession
14.	Sitapur, (Branch) 1521301 /XRESSIT01136354 AKHILESH KUMAR JAYSWAL, (Borrower), Bhagwati, (Co-Borrower), SARVESH KUMAR SHARMA (Guarantor)	GATA NO.343 VILL-DHONDHI,POST-DHONDHI, PARGANA-LAHARPUR, TEHSIL-LAHARPUR , SITAPUR,SITAPUR,SITAPUR,UTTAR PRADESH -261207, East:KACHHA RASTA, West:H/O SUDHIR JAYSWAL, North :KHADANJA, South:H/O SHIV KUMAR JAYSWAL	26-07-2024 Rs. 134366/-	24.01.2026 Symbolic Possession
15.	Sitapur, (Branch) 1509497 /XRESSIT01131823 AJAD GAJI, (Borrower), Jahrunna, (Co-Borrower), MUSAFIR (Guarantor)	GATA NO.557 VILL-DIGADIGANI,MAJRA-SAHADAT NAGAR, POST-ISLAM NAGAR,PARGANA& TEHSIL-MISRIKH,MISRIKH,MISRIKH, SITAPUR ,UTTAR PRADESH -261401, East:SAHAN OF AJAD H/O SHARIF, West:H/O TEJ, North :H/O FIDALI, South:POLT OF AJADKHADANJA	27-09-2024 Rs. 100345/-	24.01.2026 Symbolic Possession
16.	Sitapur, (Branch) 1551238 /XRESSIT01164778 SHIVNATH, (Borrower), Shiv Rani, (Co-Borrower), DINESH (Guarantor)	AABADI GATA NO. 574,VILL-DEVIPUR,, MAJRA-SUKHAWAN KLAN,POST-KAIMAHARA KALAN, PARGANA-BISWAN, TEHSIL- BISWAN,BISWAN,BISWAN, SITAPUR ,UTTAR PRADESH -261201, East:RASTA +H/O HARPAL, West:LAND OF KISHORI, North :MANGO GARDEN OF HARIPAL, South:INTERLOCKING ROAD	27-09-2024 Rs. 102184/-	22.01.2026 Symbolic Possession
17.	Sitapur, (Branch) 1563653 /XRESSIT01172211 AMAN VERMA, (Borrower), Archana Verna, (Co-Borrower), ASHISH KUMAR (Guarantor)	ABADI GATA NO.291 MI,VILL-BHUKUDA POST-URDAULI, PARGANA-MAHOLI, TEHSIL-MAHOLI, DISTRICT- SITAPUR, SITAPUR, SITAPUR, SITAPUR , UTTAR PRADESH -261141, East: H/O MAHESH, West:SHIV MANDIR, North :H/O SUBHASH, South:ROAD NH-24	27-09-2024 Rs. 144893/-	24.01.2026 Symbolic Possession
18.	Sitapur, (Branch) 1505234 /XRESSIT01131830 TRIBHUWAN, (Borrower), Rekha Devi, (Co-Borrower), SANJAY KUMAR (Guarantor)	Gata No.258 Kha Vill-parsehara Mall,post-badeliya, Pargana-hargaon,tehsil-sitapur,sitapur,sitapur,sitapur ,uttar Pradesh -261121, East: Rcc Road, West:land Of Munendra Kumar, North:interlocking Road, South: H/o Sughar Kashyap^h/o Vinendra Kumar	27-09-2024 Rs. 169721/-	24.01.2026 Symbolic Possession
19.	Sitapur, (Branch) 1562598 /XRESSIT01163512 ASHISH KUMAR, (Borrower), Bavita Bajpei, (Co-Borrower), Baburam (Co-Borrower), RAMESH KUMAR (Guarantor)	AABADI GATA NO.210,VILLAGE-URDAULI POST-URDAULI,PARGANA-MAHOLI, TEHSIL-MAHOLI,DISTT-SITAPUR,SITAPUR,SITAPUR,SITAPUR,UTTAR PRADESH -261141, East: H/O HUKUM, West:H/O RAMESH SHARMA, North : RCC ROAD, South:H/O LALLU	27-09-2024 Rs. 130777/-	23.01.2026 Symbolic Possession
20.	Sitapur, (Branch) 1387609 /XRESSIT01069388 SUNIL KUMAR MISHRA, (Borrower), Kanhaiya Lal, (Co-Borrower), Seema Devi (Co-Borrower), MO. SHREEF (Guarantor)	GATA NO.180, VILL-DULAMAU,POST-PATABHOJ,, TEH-MAHOLI,MISRIKH & DISTT-SITAPUR, DULAMAU, MISRIKH,SITAPUR ,UTTAR PRADESH -261141, East: INTERLOCKING ROAD 04 FEET, West:RASTA KACHHA 04 FEET, North :KACCHI GALI+H/O UMAKANT MISHRA, South: PLOT OF PUTTILAL	27-09-2024 Rs. 103394/-	23.01.2026 Symbolic Possession
21.	Sitapur, (Branch) 1584687 /XRESSIT01170904 TRILOKI NATH, (Borrower), Kashi Prasad, (Co-Borrower), Vimla Devi (Co-Borrower), GIRISH CHINADRA DIXIT (Guarantor)	AABADI GATA NO.568,VILL-DASELIYA PARGANA-KHAI RABAD , TEHSIL - SITAPUR , DISTT-SITAPUR,SITAPUR,SITAPUR,UTTAR PRADESH -261121, East:KHADANJA, West:LAND OF TRILOKI NATH, North :KHADANJA, South:H/O SHYAM KISHORE	05-12-2	

महू में दूषित पानी पीने से 24 लोग बीमार, शुरू हुई जांच

प्रशासन ने 12 सर्वेक्षण टीम तैनात की, दो अस्थायी अस्पताल बने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 24 जनवरी।

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे में दूषित पेयजल पीने से लोगों के बीमार होने के बाद प्रशासन ने 12 सर्वेक्षण टीम तैनात की हैं और दो अस्थायी अस्पताल स्थापित किए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। प्रशासन के अनुसार, शुक्रवार को महू के पट्टी बाजार क्षेत्र में जलजनित बीमारी से पीड़ित कम से कम 12 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। हालांकि, स्थानीय लोगों का दावा है कि इलाके में दूषित पेयजल पीने से करीब 24 लोग बीमार हुए हैं। प्रशासन ने एक बयान में बताया कि जिलाधिकारी शिवम वर्मा के निर्देश पर शुक्रवार को पट्टी बाजार क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए 12 टीम भेजी गईं, जिन्होंने अब तक 80 से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया है। प्रभावित क्षेत्र की आबादी लगभग 2,500 है। क्षेत्र में दो अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। बयान के अनुसार, अब तक 12 संदिग्ध मरीजों की पहचान की

प्रशासन ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर पट्टी बाजार क्षेत्र में सर्वेक्षण के लिए 12 टीम भेजी गईं, जिन्होंने अब तक 80 से अधिक घरों का सर्वेक्षण किया है। प्रभावित क्षेत्र की आबादी लगभग 2,500 है। अब तक 12 संदिग्ध मरीजों की पहचान की गई है, जिनका इलाज जारी है। आठ मरीज भर्ती हैं।

गई है, जिनका इलाज जारी है। इनमें से आठ मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि दो मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि पट्टी बाजार क्षेत्र से रक्त और पानी के नमूने जांच के लिए एकत्र किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर लोगों की जांच कर रही है, ताकि नए मरीजों की पहचान हो सके और लोगों को सावधानी बरतने की जानकारी दी जा सके। प्रशासन ने स्थानीय बाल रोग विशेषज्ञों

सहित दो अन्य शिशु रोग विशेषज्ञों को भी प्रभावित क्षेत्र में तैनात किया है। इसके अलावा, प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र में ओआरएस, ग्लूकोज, जिक और क्लोरीन की गोलिएसों का वितरण भी शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप में अब तक 25 लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में 15 जनवरी को पेश स्थिति स्पष्ट में इस प्रकोप के दौरान पांच माह के बालक समेत सात लोगों की मौत का जिक्र किया था। इलाके के लोगों का कहना है कि पिछले दो हफ्तों से आपूर्ति हो रहा पानी गंदा और बदबूदार है। इसी पानी को पीने के बाद कई लोग बीमार पड़े हैं, जिनमें बच्चे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। एसडीएम राकेश परमार ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बताया कि मामले की औपचारिक जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल लोगों को सिर्फ उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी गई है और स्थिति को नियंत्रण में बताया गया है।

(This is an Advertisement for information purpose only and not for publication or distribution or release directly or indirectly outside India and is not an offer document or announcement.)



PULSAR INTERNATIONAL LIMITED

CORPORATE IDENTIFICATION NUMBER: L46209GJ1990PLC152223

Our Company was originally incorporated as "Arlabs International Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a Certificate of Incorporation dated October 15, 1990, issued by the Registrar of Companies, Bombay, Maharashtra. The Company was subsequently converted into a Public Limited Company under the name "Arlabs International Limited", pursuant to a Certificate of Change of Name issued on December 06, 1993 by the Registrar of Companies, Bombay, Maharashtra. The Equity Shares of the Company were listed and admitted to dealings on the Capital Market Segment (Main Board) of BSE Limited on September 26, 1994. Thereafter, the name of the Company was changed to "Pulsar International Limited", pursuant to a Fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name dated May 10, 1996, issued by the Registrar of Companies, Maharashtra. Further, the Registered Office of the Company was shifted from the "State of Maharashtra" to "State of Gujarat" pursuant to an order dated April 26, 2024, passed by the Regional Director and the consequent Certificate of Registration of Regional Director order for change of State dated June 05, 2024, issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad. For further details of our Company, please refer to the chapter titled "General Information" on page no. 37 of the Letter of Offer.

Registered Office: 16 Vibrant Mega Industrial Park Survey No. 33, Mouje Vehlal Taluka Daskroi, Vehlal, Ahmedabad, Gujarat, India - 382330
Contact No.: +91-72028 53326, Email id: pulsar.intltd@gmail.com, Website: www.pulsarinternational.co.in;

Contact Person: Ms. Bhumi Sagar Mehta, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: M/S. BLUEROCK INVESTMENT QUOTIENT LLP

ISSUE OF UPTO 35,69,50,000* FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RE. 1.00/- EACH ("EQUITY SHARES") OF PULSAR INTERNATIONAL LIMITED ("PULSRIN" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RE. 1.00/- PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO RS. 35.695 CRORES ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 5 (FIVE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, MONDAY, 22ND DECEMBER, 2025 (THE "RECORD DATE"). THE ISSUE PRICE IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE NO. 135 OF THE LETTER OF OFFER.

#ASSUMING FULL SUBSCRIPTION OF THE ISSUE SUBJECT TO FINALISATION OF BASIS OF ALLOTMENT.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Wednesday, 31st December, 2025 and closed on Monday, 19th January, 2026 and the last date for On-Market Renunciation of Rights Entitlements was Tuesday, 13th January, 2026. Out of the total 2961 Applications for 46,23,20,738 Rights Equity Shares, 988 Applications for 33,78,888 Rights Equity Shares were rejected due to technical reason, Nil Rights Equity Shares were partially rejected as disclosed in the Basis of allotment approved by BSE Limited ("BSE"). The total number of valid Applications received were 1,973 Applications for 45,89,41,850 Rights Equity Shares. Final subscription is 128.57% after removing rejection of Rights Equity Shares under the Issue.

In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on 21st January, 2026, in consultation with the Registrar to the Issue ("RTA") and BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, the Rights Issue Committee allotted 35,69,50,000 Fully Paid-up Rights Equity Shares on 21st January, 2026 to the successful Applicants. All valid Applications have been considered for allotment.

1. The break-up of valid applications received through ASBA is as under:

Applicants	No. of applicants	No. of Equity Shares allotted against REs	No. of Rights Equity Shares allotted against valid additional shares	Total Equity Shares allotted
Eligible Equity Shareholders	1,675	4,00,08,626	5,06,35,625	9,06,44,251
Renounees	298	2,21,51,661	24,41,54,088	28,63,05,749
Total	1,973	6,21,60,287	29,47,89,713	356,9,50,000

2. Information regarding total applications received

Summary of Allotment in various categories is as under:

Category	Gross			Less: Rejections / Partial			Valid		
	Applications	Equity Shares	Amount	Applications	Equity Shares	Amount	Applications	Equity Shares	Amount
Eligible Equity Shareholders	1,724	9,12,24,685	9,12,24,685.00	49	5,80,434	5,80,434.00	1,675	90,64,4251	90,64,4251.00
Fraction	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Renounees	308	3,68,419,099	36,84,19,099.00	10	1,21,500	1,21,500.00	298	36,82,97,599	36,82,97,599.00
Not an eligible equity Shareholders of the company	929	26,76,954	26,76,954.00	929	26,76,954	26,76,954.00	0	0	
Total	2,961	46,23,20,738	46,23,20,738.00	988	33,78,888	33,78,888.00	1,973	45,89,41,850	1,39,03,47,024.00



Information for Allotment/ refund/ rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and intimation for rejection, as applicable, to the Investors has been completed on 22nd January, 2026. The instructions to SCSSBs for unblocking of funds were given on, 21st January, 2026. The listing application was filed with BSE on 22nd January, 2026 and subsequently, the listing approval was received on 22nd January, 2026 from BSE. The credit of Rights Equity Shares in dematerialised form to respective demat accounts of Allottees was completed on 22nd January, 2026 by CDSL and NSDL respectively. For further details, see "Terms of the Issue - Allotment advice or refund/unblocking of ASBA accounts" on page no. 159 of the Letter of Offer. The trading in fully paid-up equity shares issued by way of Rights shall commence on BSE under ISIN - INE183U01022 upon receipt of trading permission. The trading is expected to commence on or about 28th January, 2026.

Further, in accordance with SEBI circular bearing reference - SEBA/HQ/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on or before 22nd January, 2026.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on page no. 130 of the Letter of Offer.

Unless otherwise specified, all capitalized terms used herein shall have same meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED Address: Unit No. 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Opp. Kasturba Hospital, Lower Parel (E), Mumbai, Maharashtra, India - 400 011, Contact No.: 022-49614132 / 022-35220056; Email id: support@purvashare.com; Investor Grievance Email id: newissue@purvashare.com; Website: www.purvashare.com; Contact Person: Ms. Deepali Dhuri; SEBI Registration No.: INR000001112; CIN: U67120MH1993PTC074079.	 Ms. Bhumi Sagar Mehta Company Secretary and Compliance Officer Pulsar International Limited Registered Office: 16 Vibrant Mega Industrial Park Survey No. 33, Mouje Vehlal Taluka Daskroi, Vehlal, Ahmedabad, Gujarat, India - 382 330 Contact No.: +91-72028 53326; Email id: pulsar.intltd@gmail.com; Website: www.pulsarinternational.co.in
Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any Pre-Issue or Post-Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSSBs, giving full details such as name, address of the Applicant, contact numbers, e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSSBs where the Application Form or the claim paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" on page no. 135 of the Letter of Offer.	
THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.	
Place: Ahmedabad Date: 23rd January, 2026	For, Pulsar International Limited On behalf of Board of Directors Sd/- Bhumi Sagar Mehta Company Secretary and Compliance Officer
Disclaimer: Our Company has filed the Letter of Offer with the Stock Exchange ("BSE") and submitted with SEBI for information and dissemination. The Letter of Offer is available on website of the Stock Exchange, where the Equity Shares are listed i.e. www.bseindia.com, the website of the Registrar to the Issue at www.purvashare.com and website of the Company at www.pulsarinternational.co.in. Potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled "Risk Factors" on page no. 25 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States.	

मेडिकल बोर्ड ने कहा, एसआईटी ने सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए

पटना, 24 जनवरी (भाषा)।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) - पटना के मेडिकल बोर्ड ने शनिवार को कहा कि नीट अभ्यर्थी की हाल में हुई मौत के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अभी तक सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। बोर्ड ने संबंधित पोस्टमार्टम रपट और अन्य परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद यह बात कही। जहानाबाद को छात्रा इस महीने की शुरुआत में

बिहार : नीट अभ्यर्थी की मौत का मामला

पटना के चित्रगुप्त नगर में स्थित एक निजी छात्रावास में बेहोश पाई गई थी। वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट' की तैयारी के लिए छात्रावास में रह रही थी। कई दिन तक कोमा में रहने के बाद 11 जनवरी को एक निजी अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार ने छात्रा के यौन उत्पीड़न और अधिकारियों पर मामले को दबाने का आरोप लगाया था। मेडिकल बोर्ड के प्रमुख डा बिनय

कुमार (फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलाजी के प्रोफेसर, एम्स, पटना) ने शनिवार को यहां कहा, एसआईटी ने अभी तक हमें मामले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।

सभी दस्तावेज मिलने के बाद ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकेंगे या मामले पर अपनी राय दे सकेंगे। कुमार ने कहा, एसआईटी की ओर से बोर्ड को उपलब्ध कराए गए दस्तावेज पर्याप्त नहीं हैं...हमें अभी भी कुछ और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतीक्षा है।

CYBER MEDIA RESEARCH & SERVICES LIMITED						
CIN: L74130DL1996PLC081509						
Registered Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi - 110 017, Tel: 011-26491320						
Corporate Office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram, Haryana - 122 003, Tel: 0124-4237517						
Website: www.cmrsi.net, Email: investor.care@cmrsi.net						
Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and 9 month period ended December 31, 2025						
(Rupees in Lakhs)						
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		9 Months Ended		Year Ended
		31/12/2025 (Unaudited)	30/09/2025 (Unaudited)	31/12/2024 (Unaudited)	31/12/2024 (Unaudited)	31/03/2025 (Audited)
1	Total income from operations (net)	2,228.57	2,112.93	2,095.35	6,542.36	5,667.97
2	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	119.82	108.42	85.70	353.33	231.10
3	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	69.29	108.42	85.70	302.80	231.10
4	Net profit / (loss) for the period after tax	54.92	83.05	71.51	244.24	189.48
5	Total comprehensive income for the period	54.92	83.05	71.51	244.24	189.48
6	Paid-up equity share capital	292.80	292.80	292.80	292.80	292.80
7	Other Equity					1,431.07
8	Earnings per share (Face value per share Rs.10/-each)					
a)	Basic (Rs. per share)	1.88	2.84	2.44	8.34	6.47
b)	Diluted (Rs. per share)	1.88	2.84	2.44	8.34	6.47

Notes:

- The above consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 24/01/2026 and approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 24/01/2026
- Standalone Information:

Particulars	Quarter Ended		9 Months Ended		Year Ended
	31/12/2025 (Unaudited)	30/09/2025 (Unaudited)	31/12/2024 (Unaudited)	31/12/2025 (Unaudited)	31/12/2024 (Unaudited)
Total revenue	1,430.47	1,520.36	1,052.71	4,430.22	3,512.72
Profit before tax	52.63	93.27	40.06	251.65	138.00
Profit after tax	39.51	70.58	30.00	189.69	104.03
Other comprehensive income (OCI)	-	-	-	-	-
Total comprehensive income (Net of tax)	39.51	70.58	30.00	189.69	104.03

- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid financial results is available on stock exchange's website (www.nseindia.com) and on Company's website (www.cmrsi.net).
- Figures for the previous corresponding period have been regrouped, wherever considered necessary.

By Order of the Board
Sd/-
Dhaval Gupta
Managing Director
DIN 05287458



CYBER MEDIA (INDIA) LIMITED						
CIN : L92114DL1982PLC014334						
Registered Office: D-74, Panchsheel Enclave, New Delhi - 110 017, Tel. 011-26491320						
Corporate Office: Cyber House, B-35, Sector-32, Gurugram - 122 003, Haryana. Tel. 0124-4237517						
Website: www.cybermedia.co.in; Email: investorcare@cybermedia.co.in						
Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and 9 month period ended December 31, 2025						
(Rupees in Lakhs)						
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Month Ended		Year Ended
		31/12/2025 (Unaudited)	30/09/2025 (Unaudited)	31/12/2024 (Unaudited)	31/12/2025 (Unaudited)	31/03/2025 (Audited)
1	Total income from operations	2,549.93	2,453.22	2,378.05	7,610.70	6,556.53
2	Net profit / (loss) for the period before tax and exceptional items	137.29	118.46	(6.90)	385.92	5.86
3	Net profit / (loss) for the period before tax and after exceptional items	34.48	118.46	(885.90)	283.11	(880.02)
4	Net profit / (loss) for the period after tax	20.11	93.09	(911.60)	224.55	(921.60)
5	Total comprehensive income for the period	20.11	93.09	(911.60)	224.55	(921.60)
6	Paid-up equity share capital	1,824.85	1,824.85	1,566.72	1,824.85	1,566.72
7	Other Equity	-	-	-	-	-
8	Earnings per share (Face value per share Rs.10/-each)					
a)	Basic (Rs. per share)	0.12	0.54	(5.82)	1.31	(5.88)
b)	Diluted (Rs. per share)	0.12	0.54	(5.82)	1.31	(5.88)

Notes:

- The above consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 24/01/2026 and approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 24/01/2026.
- Standalone Information:

Particulars	Quarter Ended		Nine Month Ended		Year Ended
	31/12/2025 (Unaudited)	30/09/2025 (Unaudited)	31/12/2024 (Unaudited)	31/12/2025 (Unaudited)	31/03/2025 (Audited)
Total Revenue	344.08	427.89	290.48	1,167.29	877.42
Profit before tax	(37.96)	31.22	(976.67)	(3.76)	(1,118.15)
Profit after tax	(37.96)	31.22	(976.67)	(3.76)	(1,118.12)
Other comprehensive income (OCI)	-	-	-	-	-
Total comprehensive income (Net of tax)	(37.96)	31.22	(976.67)	(3.76)	(1,118.12)

- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated financial results are available on stock exchanges' website BSE (www.bseindia.com) & NSE (www.nseindia.com) and on Company's website (www.cybermedia.co.in).
- Figures for the previous corresponding period have been regrouped, wherever considered necessary.

By Order of the Board
Sd/-
Pradeep Gupta
Chairman & Managing Director
DIN 00007520

